

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025-पौष 27, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगरपालिका राघौगढ़-विजयपुर, जिला गुना, मध्यप्रदेश

राघौगढ़-विजयपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

क्र. स्था.-2024-भर्ती-2006.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में, निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के अनुबन्धों के अधीन नगरपालिका परिषद् राघौगढ़-विजयपुर, जिला गुना की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिह्नंकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगरपालिका परिषद् राघौगढ़-विजयपुर, जिला गुना

अनुसूची-दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिये कुल स्वीकृत पद (संख्या)	योग के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या	योग	रिमार्क			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	सहायक ग्रेड-3	नियमित	15	15	1	1	0	0	0	1	
2.	सहायक राजस्व निरीक्षक	नियमित	9	9	1	0	1	0	0	1	
3.	जनसेवक (सफाई कर्मचारी)	नियमित	41	41	2	1	0	0	1	2	
4.	जनसेवक	संविदा	83	83	5	1	1	1	0	3	

हरिप्रसाद जाटव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद् पिपरई, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

पिपरई, दिनांक 10 जनवरी 2025

क्र. स्था.-2025-102.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में, निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के अनुबन्धों के अधीन नगर परिषद् पिपरई, जिला अशोकनगर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक
नगर परिषद् पिपरई, जिला अशोकनगर

अनुसूची-दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित हेतु पदों की संख्या (प्रतिशत)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित					योग (7+8+ 9+10)
					दृष्टिबाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड पीड़ित, मस्क्युलर (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी बहुविकलांगता (1.5%)	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	चतुर्थ	जनसेवक (सफाई संरक्षक (नियमित)	13	13	1	—	—	—	1	1
2.	चतुर्थ	जनसेवक (सफाई संरक्षक (संविदा)	28	28	2	1	—	—	1	2
योग			41	41	3	1	—	—	2	3

अशोक वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.